

Date: 02-04-2022

Corporate Relations Department <b>BSE Limited</b> 1st Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Tower Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001	Corporate Listing Department <b>National Stock Exchange of India Ltd</b> Exchange Plaza, 5th Floor Plot No.C-1, G Block Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051.
--	--

Dear Sir/s

**Sub: Newspapers advertisement- Information regarding Postal Ballot/E-voting**

**Scrip Code:** BSE Code: 541700, NSE Code: TCNSBRANDS

**Ref: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

In compliance with Ministry of Corporate Affairs ('MCA') Circular No. 14/2020 dated 08 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020, 22/2020 dated 15 June 2020, 33/2020 dated 28 September 2020, 39/2020 dated 31 December 2020, 10/2021 dated 23 June 2021 and 20/2021 dated 08 December 2021 read with Regulation 30 and Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copies of newspaper advertisement in respect of Postal Ballot/E-voting and information on related matters, published in the following newspapers:

1. Business Standard-English on 02<sup>nd</sup> April 2022.
2. Business Standard-Hindi on 02<sup>nd</sup> April 2022.

This is for your information and records

Thanking you

For and On behalf of **TCNS Clothing Co. Limited**



Piyush Asija  
Company Secretary and Compliance Officer  
M. No: A21328

Date: 02-04-2022

Place: New Delhi



# Testing times for PLI schemes

Pandemic-related delays put companies in pressure



SURAJEET DAS GUPTA  
New Delhi, 1 April

## GREAT EXPECTATIONS

Capex generation expected in some key sectors of PLI

Sector	Capex share of PLI investments (%)
Solar PV	25
ACC Battery	16
Auto	15
Speciality steel	14
Pharma	7
Textiles	7
Mobile devices	4
White goods	3
Medical devices	3

Source: Crisil, DPIIT and Industry

This year, a bevy of companies that qualified under the production linked incentive (PLI) scheme failed to achieve their investment or production value targets or both. This failure in their very first year of the programme is something the government might not have anticipated.

The deadline to claim incentives for the first year ended on March 31, but the companies concerned blamed their problems on the pandemic for disrupting supply chains (the chip shortage being one problem), delaying factory construction. Delayed government permissions meant that PLI-bound companies had less than 12 months to get started.

The hit has been taken by companies across IT hardware, telecom products and mobile devices. In some cases, while they have achieved their investment target, they failed to meet their production targets. According to industry estimates, only two or three players in IT hardware sector out of the 14 that qualified for the scheme are expected to cross the magic line. In mobile devices, despite an extension of the scheme for a year due to the pandemic, three to four of the 10 eligible players are not expected to make the cut. So they lose one year of incentives. The losers include home-grown players such as Lava International and Optimus Electronics (both declined to comment).

Even among global big-wigs Foxconn's Rising Star, which manufactures phones for non-Apple customers, looks highly unlikely to make its targets. The PLI schemes offer incentives for phones that cost more than ₹15,000, a market that is still tiny in India. A spokesperson of the company declined to comment on the issue.

In telecom products, a joint venture between Bharti and Dixon Technologies has written a letter to the government asking for a one-year extension because it could not make the investment required to set up a plant. Telecom gear maker HFCL also wants an extension.

Says Pankaj Mohindroo, president of India Cellular and Electronics

Companies have petitioned the government to double the incentive from 2.5 per cent to 5 per cent and extend the tenure

Association: "The huge supply chain disruption in 2021, especially for chips and more so for domestic players who were not part of any global supply chain, has really hit them hard." A local mobile device maker laments: "Being an Indian player we were last in the chain for supply for global semiconductor chips. So, production was hit badly. We expect FY23 to be much better."

But are these problems due to the pandemic or are they teething problems associated with implementing a complex scheme? The government allocated ₹1.93 trillion for 15 sectors across five years as incentives. Companies like Apple and Samsung have demonstrated that incentives can work — the scheme has helped them push mobile device exports for the country to \$5.5 billion in FY22, a 75 per cent growth over the previous year. The industry is gearing up to double that number in FY23.

So the PLI scheme, when it gets cracking across 15 sectors, is expected to bring in incremental revenues of ₹30-35 trillion. Rating agency Crisil predicts that the scheme will play a key role in the country's tryst with capex recovery.

Investments will take time to hit the ground as many of the big schemes are only just being finalised and will begin from FY23. Crisil estimates that just 22 per cent of the capital expenditure

expected under PLI has kicked in for seven out of the 15 sectors.

For instance, in the PLI for advanced chemistry batteries that will power electric vehicles, the focus is clearly on import substitution. But it was just a few days ago that the eligible winners were announced. These players will account for about 16 per cent of the overall incremental investment is expected in all PLI schemes.

Also, buoyed by the huge rush from industry the government has substantially tweaked the PLI for making solar PV modules by increasing the allocation nearly fivefold to ₹19,500 crore and pegging it to 90 per cent value addition with the hope that it could become an important export opportunity. This sector is expected to account for one-fourth of PLI investments across 15 sectors. A fresh round of bidding (earlier some companies had already been chosen) that is expected soon.

PLI schemes are also expected to create six million jobs but more than half those numbers will come from five sectors — speciality steels, ACs, LEDs, autos and components, and high-tech mobile devices. Apple, with its three vendors, is expected to account for eight per cent of the total job creation.

Exports are an important goal too, even if initial targets have been trimmed in some sectors. In IT hardware, for instance, the export target of 75 per cent production value has been reduced to 37 per cent. At least nine sectors have export potential. But even here global mobile device makers seem to have taken a large part of the burden — 60 per cent of total production in five years.

Only time will tell whether these targets will be hit. But companies are also facing challenges due to ill-defined schemes. In IT hardware the initial scheme was to make India into an export hub, even though most laptops were imported. The incentive scheme was pegged so low that it did not account for the cost disability with China.

As the CEO of a leading domestic consumer electronics firm eligible for PLI, explained: "India imports over 90 per cent of laptops and tablets mostly from China. Being a signatory to ITA-1 agreement global players can bring Completely Built-in Units at zero duty so there is no incentive to go for contract manufacturing in India. What you require is an attractive incentive regime for import substitution that reduces the cost disability with China of around 9 per cent."

Companies have petitioned the government to double the incentive from 2.5 per cent to 5 per cent and extend the tenure of the scheme from four to eight years because India has no component infrastructure. And to do so they are demanding a larger allocation — a threefold increase to around ₹20,000 crore — so that India has a substantial domestic manufacturing base. They have also asked for another year's extension as most of the players have not made the cut in FY22. The government committee to resolve such problems is already in action.

In telecom for instance, domestic players have been impacted by the delay in 5G auctions. "Without the auctions, telcos have not given any orders. So building capacity and keeping it idle does not make sense — especially as most of them have reached their investment peak for 4G investments. Plus, you have component and chip shortages," said a senior executive of a company involved in telecom PLI.

With more and more sectoral PLIs kicking off into their first year, the real test of this grand scheme begins now.

# UP leads in completion of smart city projects

ISHANA GERA  
New Delhi, 1 April

It has been six years since the government launched the Smart City Mission, under which 100 cities were selected. The timeline to complete the programme was set to 2022, and was shifted to June 2023 last year. A Business Standard analysis shows that of the 100 cities, only 14 have completed over 50 per cent of the projects in terms of value. Furthermore, five of those belong to Uttar Pradesh (UP). The other five in UP have a completion rate of over 30 per cent. Varanasi had the highest completion rate of 87.1 per cent among all the cities.

The city led the country with an 86.8 per cent completion rate in terms of the number of projects. From 106 projects at various stages of development in Varanasi, 92 had been completed as of March 28. Overall, 34 cities across all states had completed over half of their work. The average completion rate across India was 47.2 per cent in terms of the number of projects and 28.3 per cent in value terms.

UP led the country in the completion of smart city projects. The state had completed 379 of the 706 projects listed until March 28. For the ten smart cities listed in the state, the total value of completed projects was ₹11,564.9 crore, against the total project value of ₹20,745 crore.

Rajasthan had the second-highest completion rate in terms of value at 48.7 per cent,

## 14 SMART CITIES HAVE OVER 50% COMPLETION RATE

No of smart cities as per completion rate

Rate of completion (%)	No of smart cities
Less than 10	28
10-20	19
20-30	14
30-40	14
40-50	12
50-60	4
60-70	8
70-80	1
80+	1

Rate of completion is calculated by dividing value of project completed from total value of projects  
Source: Smart Cities Mission, Lok Sabha

whereas Delhi's completion rate was 43.6 per cent. Assam and Punjab were the worst performers among the larger states with 5.4 and 5.8 per cent completion, respectively.

Of the 35 states/UTs for which data is available, 10 had a completion rate of less than 10 per cent. As many as 25 states and UTs performed lower than the national average of 28.3 per cent.

UP also performed better than the rest of the states in the value per completed project. The value per completed project of the state was ₹30.5 crore, whereas the value of projects at various stages of completion was ₹28.1 crore.

Three other states/UTs had completed projects of higher value than those that remained unfinished. In

## VARANASI TOPS THE LIST OF CITIES WITH HIGHEST LEVEL OF PROJECT COMPLETION

City	Rate of completion (%)
Varanasi	87.1
Lucknow	70.8
Tumakuru	69.8
Agra	69.7
Prayagraj	66.9
Aurangabad	66.3
Tirunelveli	64.8
Salem	64.4
Surat	64.1
Chennai	62.2
Aligarh	58.0
Kakinada	52.4
Jaipur	52.0
Ajmer	50.2

Rate of completion is calculated by dividing value of project completed from total value of projects  
Source: Smart Cities Mission, Lok Sabha

Dadra and Nagar Haveli, the value per completed project was ₹43 crore, whereas the value per unfinished project was ₹24.1 crore. This was also the case for Manipur and Telangana.

For the country, while ₹16.8 crore worth of projects were completed, the value per unfinished project was ₹38 crore.

A higher value per unfinished project indicates that the states have completed smaller projects first, but the larger ones, which are more prone to cost and time delays, remain to be completed.

## UTTAR PRADESH HAS COMPLETED HALF OF THE PROJECTS

Rate of completion, %

State	No. of projects	Projects by value
Uttar Pradesh	53.7	55.7
Rajasthan	61.4	48.7
Delhi	74.8	43.6
Odisha	38.6	37.2
Gujarat	61.6	34.2
Madhya Pradesh	57.3	31.9
Uttarakhand	42.9	31.5
Jammu & Kashmir	36.2	30.6
Karnataka	66.4	30.0
Tamil Nadu	45.4	29.5
India	47.2	28.3
Kerala	37.5	28.2
Andhra Pradesh	51.1	24.3
Telangana	18.8	22.4
Nagaland	27.3	20.7
Bihar	34.2	20.2
Maharashtra	48.1	19.7
Tripura	59.5	18.8
Chandigarh	39.0	18.2
Himachal Pradesh	24.6	16.6
Haryana	35.0	15.9
Daman and Diu	17.9	15.0
Chhattisgarh	40.1	13.0
Jharkhand	17.6	12.4
Manipur	8.9	12.2
Dadra and Nagar Haveli	5.9	10.0
Mizoram	15.0	9.7
West Bengal	56.3	9.6
Arunachal Pradesh	16.9	8.7
Sikkim	9.2	6.4
Punjab	41.2	5.8
Assam	25.0	5.4
Andaman Nicobar Islands	26.9	4.4
Goa	25.6	1.9
Lakshadweep	22.2	1.0
Meghalaya	2.7	0.0

Rate of completion is calculated by dividing completed projects from total value of projects  
Smart Cities Mission, Lok Sabha

# 'Chip shortage still a challenge for commercial vehicle players'

The rise in fuel prices and the Ukraine crisis have not made any severe dent in the commercial vehicles business as yet, says UMESH REVANKAR, vice-chairman and managing director, Shriram Transport Finance (STF). In an interaction with Shine Jacob, Revankar says the company is expecting a growth rate of 10 per cent in assets under management (AUM) in 2022-23. Edited excerpts:

What sort of impact are you seeing on commercial vehicles demand following the Ukraine crisis and the rise in fuel prices?

What I see is that demand per se has not come down. There is enough demand in the market. But some of it is getting postponed due to certain challenges. On the supply side, the issue of chip shortage continues to be a challenge. Thus, there is a supply-side constraint. The new scenario in demand is likely to continue as long as there is a supply-side shortage and availability remains a challenge. Geopolitical tensions have led to fluctuations in fuel prices but we have seen some cooling off from the highs. Hence, it is not an adverse situation right now. Only when prices go beyond previous all-time highs will I believe that fuel is going to be a major challenge.

What is your growth forecast and also with the Securities and Exchange Board of India (Sebi) nod for the merger of Shriram City Union and Shriram Transport, what is

your next step? We are targeting an AUM growth of 10 per cent next year and we have a plan of action that will help us achieve a

higher level of market share. In the last three years, we have grown at 5 per cent, 6 per cent and this year we should end up at 8 per cent. Our growth target remains

contingent on the return to normalcy, but despite the uncertainty, we believe it will be better than the last two Covid years. On the credit cost estimation front, we expect to beat 2 per cent by next year-end. On other business verticals, affordable housing finance is likely to grow much faster, as the market scope is very high. For Shriram City, too, growth for two-wheelers and small and medium enterprise finance is showing a pick-up. On the merger front, we are moving from Sebi to National Company Law

Tribunal now. It may take six months — around October-November. We are getting our engines ready for the merger by running pilots and we will be focusing on launching the products and services of each company. We are going from geography to geography. We are in the process of upskilling our staff and training them to be future-ready. When you look at the combined Shriram City Union and Shriram Transport, we expect the pace



of growth for Shriram City Union products to be faster.

With the slew of fuel price hikes, are you seeing the importance of CNG vehicles? There is already a switch from standard diesel to CNG or electric vehicles (EVs) in smaller vehicles. On heavy commercial vehicles, however, either CNG or EVs is not an option now. CNG is heavy to carry, and therefore, only small vehicles can use it. The same problem is faced with electric vehicles. The waiting time at any CNG outlet is also quite long. But people are actively shifting to CNG in city-bound vehicles. If you look at the last few months, Tata and Maruti have launched CNG variants in all their base models.

Is there a positive growth curve in terms of used vehicles too? Chip shortages to make new vehicles and uncertainty on the economic front and now rising fuel prices are driving demand for used vehicles. The demand for used vehicles and their financing is quite robust. There is better demand for used vehicles now and their resale value has gone up by 25 per cent in the last one year.

**PSPCL Punjab State Power Corporation Limited**  
(Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall Patiala-147001)  
Corporate Identity No.: U40109PB2010SGC033613  
Website: www.pspcl.in Mobile No. 96461-18721

**TENDER ENQUIRY No.: QW-296/PO-W Dated 30.03.2022**

Chief Engineer/Stores & Workshops Organization, Sarabha Nagar, PSPCL, Ludhiana, invites E-tender for Supply, installation and commissioning of:

- 11 Nos. Set of complete 3 phase Power Analyzer including applicable Variac Sets and Accessories (to be enclosed in one cubical unit) to measure No Load & Full Load Losses of 11/0.433 KV, Distribution Transformers ranging from 6.3 to 200 KVA capacities as per IS 2026, having maximum percentage impedance 5%.
- 01 Nos. Complete 3 Phase Power Analyzer including applicable Variac Set and accessories (to be enclosed in one cubical unit) to measure No Load & Full Load Losses of 11/0.433 KV, Distribution Transformers ranging from 6.3 to 500 KVA capacities as per IS 2026.

For detailed NIT & tender specification please refer to <https://eproc.punjab.gov.in> from 01.04.2022 from 2.00 pm onwards.

Note:- Corrigendum & addendum, if any will be published only online at <https://eproc.punjab.gov.in>

Chief Engineer/ Stores & Workshops Organization  
PSPCL, Ludhiana

76156/12/52/2021/13240 C93/22

**CONCOR CORPORATION OF INDIA LTD.**  
(A Non-Banking Financial Company) (Incorporated in India)  
41 Shalimar Park, Durgam Chok, 5th Floor, Kolkata - 700017. Phone: 2255 7101 - 08

**E-Tender Notice**

**TENDER No.:** CONAREA-IV/CFS-MT/OPENE-TENDER/2022

**Title of TENDER:** OPEN E-TENDER FOR APPOINTMENT OF BUSINESS DEVELOPMENT AGENCY AT CFS-MAJERHAT-KOLKATA.

**Estimated Cost:** Rs. 20.5 CRORES for five years (approx.)

**Period of Contract:** 48 months + 12 months (if required).

**Earnest Money Deposit:** Rs. 500,000/- through e-payment online.

**Cost of Document:** Rs. 1000/- inclusive of all taxes through e-payment online - non refundable.

**TENDER Processing Fee:** Rs. 4720/- Inclusive of all taxes (Non-refundable) through e-payment.

**Date of Sale (Online):** From 04/04/2022 10:00 hrs. to 25/04/2022 (upto 1600 hrs.)

**Pre-bid meeting (Virtual):** 20/04/2022 at 12:00 hrs.

**Last Date & Time of submission of OPEN E-TENDER (Online):** 26/04/2022 upto 16:00 Hrs.

**Date & Time of opening of OPEN E-TENDER (Online):** 27/04/2022 at 16:00 Hrs.

For eligibility criteria and other details, please log on to [www.concorindia.com](http://www.concorindia.com), or [www.tenderindia.com](http://www.tenderindia.com). Bidders are requested to visit website regularly. CONCOR reserves the right to cancel the e-tender at any point of time without assigning any reason. Bidders are requested to note that corrigendum/addendum/clarifications, if any, shall be posted at CONCOR website only.

Sd/-  
Area Head-Area IV

**Wishful eleven**

**TCNS CLOTHING CO. LIMITED**

CIN: L99999DL1997PLC090978  
Regd. Office: Unit No. 119, W-House, New Mangalpur, Mandi Road, Sultanpur, Mehrauli, New Delhi - 110030  
Corporate Office: 119 & 127, W-House, New Mangalpur, Mandi Road, Sultanpur, Mehrauli, New Delhi - 110030  
Tel.: 011-42193193, Email: [investors@tcnsclothing.com](mailto:investors@tcnsclothing.com), Website: [www.wforwoman.com](http://www.wforwoman.com)

**Information regarding Postal Ballot/E-Voting**

In compliance with Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013, read with applicable rules, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in accordance with the general circular numbers 14/2020 - dated 08 April 2020, 17/2020 - dated 13 April 2020, 22/2020 - dated 15 June 2020, 33/2020 - dated 28 September 2020, 39/2020 - dated 31 December 2020, 10/2021 - dated 23 June 2021 and 20/2021 - dated 08 December 2021 (collectively referred to as the "MCA Circulars"), Members may please note that TCNS Clothing Co. Limited (the "Company") will be seeking consent of the Members by way of Postal Ballot/Voting by Electronic means ("Postal Ballot") to transact the business(es) that will be set forth in the Postal Ballot Notice ("Notice").

In accordance with the MCA Circulars, the Notice will be sent only through electronic mode to all the Members holding securities of the Company as on 01<sup>st</sup> April 2022 ("Cut Off Date") and whose Email IDs are registered with the Company/Depository Participants (DPs). The Notice will also be available on the website of the Company at [www.wforwoman.com](http://www.wforwoman.com), on the website of KFin Technologies Limited, Company's RTA ("Kfintech") at <https://evoting.kfintech.com> and on the websites of Stock Exchanges, viz. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) respectively. The manner, instructions and other information relating to e-voting process will be provided in the Notice.

Members holding shares in physical form who have not yet registered their email addresses with the Company are requested to register the same by following the procedure specified in the Notice, i.e. either by registering through the link <https://ris.kfintech.com/clientservices/postballot/> or by writing to Kfintech at [elwinward.ris@kfintech.com](mailto:elwinward.ris@kfintech.com) along with the following documents:

- Scanned copy of signed request letter mentioning their name and address;
- Scanned copy of the share certificate (front and back);
- Self-attested scanned copy of PAN Card; and
- Self-attested scanned copy of any document (viz. Aadhar Card, Driving License, Passport) in support of their address.

Members holding shares in dematerialised form and who have not yet registered/updated their email addresses are requested to get their email addresses registered/updated with their respective DPs.

This advertisement is being issued for the benefit of all the members of the Company.

By order of the Board for TCNS Clothing Co. Limited  
Sd/-  
Piyush Asija  
Company Secretary & Compliance Officer  
M. No. A21328

Place: New Delhi  
Date: April 2, 2022

**Gacli Gujarat Alkalies and Chemicals Limited**  
(An ISO Certified Company) (Promoted by Govt. of Gujarat)  
REGD. OFFICE: P. O. RANOLI - 391 350, DIST. VADODARA, GUJARAT, INDIA.  
Phone: +91-265-611000 & 719000 Fax: +91-265-611012  
Website: [www.gacli.com](http://www.gacli.com) E-mail: [corporate@gacli.com](mailto:corporate@gacli.com)  
(CIN: L24110GJ1973PLC002247)

**NOTICE OF POSTAL BALLOT**

1. NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") and further read with General Circulars No.14/2020 dated April 8, 2020 and No.17/2020 dated April 13, 2020 and No. 20/2021 dated December 8, 2021, along with other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings ("SS-2") and other applicable laws, Rules, Regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force and as amended from time to time) ("applicable laws"), the Gujarat Alkalies and Chemicals Limited ("Company") is seeking approval from its members for passing the following Resolutions (s) as set out in the Postal Ballot Notice ("Notice") dated 24<sup>th</sup> March, 2022 by way of remote electronic voting ("e-voting" or "remote e-voting").

**SPECIAL BUSINESS:**

(i) To appoint Shri J. P. Gupta, IAS (DIN 01952821) as a Director of the Company (Ordinary Resolution); (ii) To appoint and approve remuneration & perquisites payable to Shri Harshad R Patel, IAS (DIN 08101424) as a Managing Director of the Company (Ordinary Resolution); and (iii) To appoint Shri Nitin Shukla (DIN 00041433) as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation (Special Resolution).

2. In compliance with the above-mentioned provisions and MCA Circulars, the requirement of sending physical copies of the Notice, Postal Ballot Forms and pre-paid business envelopes has been dispensed with and hence, the Notice has been sent through electronic mode only. Further, the Notice has been sent on Friday, April 1, 2022 to those Members whose email address were registered with the Company / Depository / R/T Agent and whose names are recorded in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Tuesday, March 29, 2022.

3. In terms of the above-mentioned provisions, the Shareholders are provided with the facility to cast their vote electronically through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") on the resolutions set forth in the Notice. The Notice along with e-voting instructions is available on the Company's website [www.gacli.com](http://www.gacli.com), websites of Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). A person who is not a Shareholder as on the Cut-off date should treat this Postal Ballot Notice for information purposes only. Summary of the relevant dates for remote e-voting process is given below:

Event	Date
Cut-off date for remote e-voting	Tuesday, March 29, 2022
Commencement of remote e-voting	Monday, April 4, 2022
End of remote e-voting	Tuesday, May 3, 2022
Result of remote e-voting	On or before Thursday, May 5, 2022
Event Number for remote e-voting	220324006

4. Please note that e-voting module will be disabled by CDSL for remote e-voting after 05:00 p.m. (IST) on Tuesday, May 3, 2022. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

5. The manner for remote e-voting for shareholders is shown in the Notice at Note No. 12 thereof, which is placed on the Company's website [www.gacli.com](http://www.gacli.com), websites of Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of CDSL at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

6. In case of any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, Members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, Central Depository Services (India) Limited, 25<sup>th</sup> Floor, A Wing, Marathon Futrex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013 at designated Email id: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call on 022-23058542/43.

7. Shareholders holding shares in physical form are requested to update/register their PAN, Nomination, Contact Details i.e. Postal address with PIN Code, Mobile number, E-mail address, Bank Account details and Specimen Signature by providing Form ISR-1, ISR-2, ISR-3 and Form SH-13 complete in all respects along with other required documents as prescribed in these Forms by any one of the following modes:-

- (i) Sending hard copy of the said Forms along with required documents to our RTA, Link Intime India Private Limited at C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Unit: Gujarat Alkalies and Chemicals Limited; or
- (ii) In person verification (IPV) of the said Forms and required documents at the office of our RTA, Link Intime India Private Limited at B-102 & 103, Shangrila Complex, First Floor, Opp. HDFC Bank, Near Radha Krishna Char Rasta, Akota, Vadodara - 390 020; or
- (iii) Through electronic mode, by downloading the said forms and filling the same with e-sign. The required documents should be uploaded at the website of the RTA of the Company at <https://web.lintime.co.in/KYC/index.html>. Procedure for uploading the documents is available at the said link.

8. The Company has appointed Mr. Niraj Trivedi, Practicing Company Secretary as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through e-voting process in a fair and transparent manner.

9. The result of Postal Ballot shall be declared on or before Thursday, May 5, 2022. The results along with the Scrutinizer's Report, will be displayed on the website of Company at [www.gacli.com](http://www.gacli.com), websites of Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and also on the CDSL's website at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

For GUJARAT ALKALIES AND CHEMICALS LIMITED  
Sd/-  
(SANJAY S. BHATT)  
Date: 01.04.2022 COMPANY SECRETARY & CGM (LEGAL & CC)

Place: Vadodara  
Date: 01.04.2022

